

रामकृष्णानगर में कई प्रकाशनों की 50 लाख रुपए की नकली किताबें बरामद

Hindi News | Local | Bihar | Patna

Patna News fake books worth rs 50 lakh recovered from several publications in ramakrishnanagar

Patna News - सिटी रिपोर्टर | फुलवारीशरीफ नकली किताबें छाप कर पूरे राज्य में सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है।...

Aug 31, 2019, 08:55 AM IST



सिटी रिपोर्टर | फुलवारीशरीफ

नकली किताबें छाप कर पूरे राज्य में सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को रामकृष्णानगर की पोस्ट ऑफिस गली में बाइंडिंग गोदाम से 50 लाख की किताबें जब्त की गईं। इनमें भारती भवन प्रकाशन सहित कई अन्य प्रकाशनों की किताबें हैं। इस संबंध में भारती भवन प्रकाशन के सेल्स अधिकारी सुरेश कुमार भारती ने बताया पटना के कई किताब दुकानदारों से सूचना मिल रही थी कि भारत बुक डिपो के नाम से भारती भवन प्रकाशन, बीबीडी फ्रेंड्स प्रकाशन और एमबीडी की नकली किताबें बाजार में बिक रही हैं। इन सूचनाओं के आधार पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से जाकरियापुर की पोस्ट ऑफिस गली में छापेमारी की गई और करीब 50 लाख की नकली किताबें बरामद की गईं। भारती भवन के अधिकारी सुरेश भारती ने बताया कि नकली किताब रद्दी कागज पर तैयार हो रही थी। किताबों पर कीमत वही दर्ज है जो असली किताब पर है। जबकि, इसको तैयार करने में आधे से भी कम लागत आती है। इन नकली किताबों से अवैध प्रिंटिंग प्रेस सहित थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता को लाखों का फायदा होता है।

छापेमारी की भनक लगते ही संचालक राजेश कुमार फरार हो गया। वैसे बाइंडिंग गोदाम में काम रहे 16 मजदूरों को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। संचालक मूल रूप से नालंदा का निवासी है। वर्तमान में कृष्णानगर में रहता है। भारती भवन के अधिकारी ने संचालक खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानेदार सुबोध कुमार बताया कि बाइंडिंग गोदाम को सील कर दिया गया है।

Source: https://www.bhaskar.com/bihar/patna/news/fake-books-worth-rs-50-lakh-recovered-from-several-publications-in-ramakrishnanagar-085505-5363132.html?utm_expid=.YYfy3_SZRPiFZGHcA1W9Bw.0&utm_referrer=